



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 5, मंगलवार, शाके 1941 अगस्त 27, 2019
Bhadra 5, Tuesday, Saka 1941–August 27, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER

Jaipur August 14, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/ 7421 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipality Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipal (Election) Rules, 1994 Chief Municipal officer Municipal Board Pindwara has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Pindwara. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of Chief Municipal officer and approves the draft order of ward formation as proposed by Chief Municipal officer.

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगर पालिका पिण्डवाडा (सिरोही)

प्रारूप – क

नगर पालिका पिण्डवाडा (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्ड गठन)

| वार्ड सं. | ब्लॉक नम्बर | जनसंख्या | विवरण |
|-----------|-------------|-------------|--|
| 1 | 1 पूर्ण | 625 | अर्जुनलाल लुहार के कारखाने से आरम्भ होकर ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए औद्योगिक क्षेत्र लेते हुए जनापुर रोड, आर.टी.डी.सी. होटल से वोलकेम फेक्ट्री होते हुए वोलकेम चौराहा से रेलवे स्टेशन रोड की ओर चलते हुए गुप्ताजी के मकान से रामाराम हिरागर, काशिबा कॉलोनी की आबादी, ईकबाल मोहम्मद के मकान से होते हुए पुनः अर्जुनलाल लुहार के कारखाने तक की परिधि में आया हुआ सम्पूर्ण क्षेत्र एवं रेलवे फाटक के कोने से रामाराम के मकान से दक्षिणी पश्चिम कोने से रोड होते हुये गुप्ताजी के मकान से उत्तर की ओर लक्ष्मी कुंज सम्मिलित करते हुये कॉफी शॉप तक का सम्पूर्ण भाग। |
| | 2 पूर्ण | 420 | |
| | योग | 1045 | |
| 2 | 3 पूर्ण | 395 | OLD NH 14 सिरोही रोड की तरफ शराब की दुकान के कोने से HYCRDN INDIA Wolkem Colony से दक्षिण दिशा में पंचवटी रावल समाज परकोटे से पूर्वी और जनापुर रोड बस स्टेण्ड मार्ग तक बाल विकास कार्यालय होते हुये गुप्ता जी बिल्डिंग से पंचायत समिति कार्यालय से पुनः शराब की दुकान तक। पार्थिक मिडवे से महादेव नगर होते जनापुर रोड कृषि भूमि खसरा संख्या 367 से अजयपुरा न्यु आबादी से |
| | 4 पूर्ण | 701 | |
| | योग | 1096 | |

| | | | |
|---|-----------------------------|------------|---|
| | | | ममता फेबरीकेशन (चुन्नीलाल जी कारखाने तक वहां से दक्षिणी और झालम सिंह भाटी के मकान होते हुये देवेन्द्र कुमार गुर्जर के कृषि भूमि से पुनः महादेव नगर सम्पूर्ण भाग । |
| 3 | 5 पूर्ण 6 (आंशिक) | 606 315 | रेलवे फाटक से लगाकर रेलवे कॉलोनी बस स्टेण्ड से देवेन्द्र सिंह पान के केबिन से होते हुये नये रेलवे स्टेशन के पास गणेश मेघवाल के मकान तक खंसरा संख्या 2317 अजयपुरा नई आबादी किशनलाल, महेश गुर्जर से मकान के कॉर्नर से होते हुये सुर्या होटल से बस स्टेण्ड का सम्पूर्ण भाग । रेलवे स्टेशन के पूर्वी भाग डाक बंगले से मीणावास गुर्जर वास नगर पालिका धर्मशाला होते हुये अजारी तिराहे से अजारी रोड पर महादेव नगर -2 का सम्पूर्ण भाग पुनः रेलवे लाईन तक का सम्पूर्ण भाग । |
| | योग | 921 | |
| 4 | 6 (शेष) 9 (सम्पूर्ण भाग) | 400 572 | नदी पुल से होते हुये दुरसंचार विभाग, वन विभाग गेहलोट भवन से अजारी रोड पूर्वी और महादेव नगर, ब्रह्माकुमारी संस्थान से जे आर कॉलेज तक सम्पूर्ण भाग एवं रेलवे स्टेशन के दाईं और मफल भाई रावल की दुकान को लेते हुये जैन धर्मशाला बैंक ऑफ बडौदा होते हुये भस्तीया वाला का सम्पूर्ण भाग एवं रेलवे फाटक के पास से नदी और मदरसा होते हुये रेलवे पुल तक का सम्पूर्ण भाग । |
| | योग | 972 | |

| | | | |
|---|--|-------------|---|
| 5 | 7 (सम्पूर्ण भाग) 8 (सम्पूर्ण भाग) | 652 259 | सेनजी महाराज मंदिर से दक्षिणी में गंगाजलिया कृषि कुआं व देवाराम प्रजापत का कृषि फार्म से जे.जे. कॉलोनी का सम्पूर्ण भाग वहां से पुलिस स्टेशन होते हुये तहसील कार्यालय रा.बा0उ0मा0 विधालय से मजिस्ट्रेट रेजीडेसी से होते हुये देवनगरी कॉलोनी का सम्पूर्ण भाग एवं हेमा नथाजी के मकान कॉर्नर से दक्षिणी बाईं और वागरियों के मकान तक कृषि भूमि सम्पूर्ण भाग । सुखाडिया सर्कल होते हुये पूर्वी भाग SBI बैंक होते हुये घांची समाज प्याउ से द्वारिकाधीश मंदिर तक से दक्षिणी भाग कॉर्नर से सुजा/सीताजी का मकान स होते हुये पुनः सुखाडिया सर्कल तक का सम्पूर्ण भाग । |
| | योग | 911 | |
| 6 | 10 (सम्पूर्ण भाग) 11 (सम्पूर्ण भाग) | 689 382 | नदी पुल से अशोक शर्मा वकील के मकान से पालिका गार्डन होते हुये आदिवासी हॉस्टल होते हुये नगर पालिका , हॉस्पिटल, रा0उ0प्रा0वि के उत्तर में पुराने पशु चिकित्सालय होते हुये गुदरिया कुआं से 50 FIT रोड से पुनः बाईं और सोमाराम ताराजी प्रजापत के मकान होते हुये मुर्दा कोटरी से आवासन मण्डल कॉलोनी वागरियों वाला जाव सम्पूर्ण भाग जिसमें RSEB बोर्ड महावीर हॉस्पिटल, विवेकानन्द स्कुल इत्यादि को सम्मिलित करते हुये सम्पूर्ण भाग वर्धमान नगर से पुरानी तहसील रोड चंपालाल सुथार के STD की दुकान से उत्तर बायीं तरफ सुथार वास से आटा चक्की (रामदेव जी मंदिर से जीवाराम/खासाजी के मकान से होते हुये 50 FIT रोड से धर्माराम खोबेवाला से पुनः वर्धमान नगर तक |
| | योग | 1071 | |

| | | | |
|----|-------------------|------------|--|
| | | | सम्पूर्ण भाग । |
| 7 | 12(सम्पूर्ण भाग) | 867 | उम्मेदराज राजपुरोहित के मकान से उत्तरी दिशा में होते हुये नारायण माली दुध की डेरी से सब्जी वाले के मकान होते हुये नाथु सिंह/भोम सिंह देवडा के घर से कॉर्नर से बायोसा मंदिर होते हुये गदावा कॉलोनी का सम्पूर्ण भाग एवं थान सिंह राठौड RI के मकान के पीछे से उल्लाजी माताजी मंदिर होते हुये , सुरेश प्रजापत के चार दिवारी तक वहा से होते हुये पुनः 50 Ft रास्ते से जवानमल सुथार के घर से पुनः उम्मेद पुरोहित घर तक का सम्पूर्ण भाग । |
| | योग | 867 | |
| 8 | 13 (सम्पूर्ण भाग) | 590 | भवानी सिंह वागसिंह के मकान के कार्नर से पिंजारो के मकान होते हुये इन्द्रा कॉलोनी रास्ते का कॉर्नर मंछाराम/तोलाजी के मकान होते हुये जोगियो का वास राजपुत वास ,झाडोली जावे वाले मार्ग नदी तक का सम्पूर्ण भाग वहां से नवीन आदर्श विधालय होते हुये पुनः मैन रोड से भवानी सिंह के मकान तक का सम्पूर्ण भाग । |
| | 14 (आंशिक) | 312 | |
| | योग | 902 | मस्जिद के पास से जवाराम प्रताप से हबीब खान पिंजारा के मकान से गोरखाराम सेन की पोल होते हुये सुथार वास में सरदारींग पुरोहित के मकान से किकजी पुरोहित के मकान होते हुये पुरुषोत्तम TV की दुकान से कल्पतरु हाउस से प्रजापत पोल से माताजी होते हुये जैन गली भवंरजी रावल प्टटी वाले घर तक का सम्पूर्ण भाग । |
| 9 | 14 (आंशिक) | 300 | कुरेशीओं की गली के सामने वाली उमठो के मकान से होते हुये मस्जिद के पास कुम्हारो की दुकान से पूर्वी |
| | 15 (सम्पूर्ण भाग) | 249 | और बंसत कुमार/समरथमल के मकान से दक्षिण दिशा से मगनलाल सेन के मकान से होते हुये सैन गली नीम के पेड तक का सम्पूर्ण भाग |
| | 24 (आंशिक) | 310 | |
| | योग | 859 | मस्जिद के सामने बाबुलाल सेन के मकान से लगाकर अनराज समरथमल के मकान होते हुये पूर्व में गोरधनजी मेरसोनार से ललीत कुमार/भूरमलजी के कॉर्नर से उत्तर दिशा में आन्नदी लाल के मकान से पश्चिम में देवी सिंह डाबी के मकान से होते हुये पुनः बाबुलालजी सेन के मकान तक का सम्पूर्ण भाग वहां से भगवानाराम/वीराजी की पोल से लेकर चंदन निवास चामुण्डा मंदिर से जैन मंदिर के सामने जयंति लाल लालचन्द जी के मकान होते हुये पानी की टंकी से देवडों वास के पीछे वाली गली से पुनः भगवानाराम के मकान तक का सम्पूर्ण भाग । |
| 10 | 16(सम्पूर्ण भाग) | 371 | रतन पार्क कोने से होते हुये प्रकाश कुमार इन्दरमल सुथार की दुकान के पूर्वी दाईं घांची समाज के भवन होते हुये फुलचंद खण्डेलवाल के मकान से भैरजी सेन के मकान होते हुये उत्तरी और बाबुजी प्रजापत के मकान से रतन पार्क तक का सम्पूर्ण भाग । |
| | 17(सम्पूर्ण भाग) | 612 | |
| | योग | 983 | तिलोक/भुराजी की पोल से पुरानी तहसील रोड होते हुये सुरेश कुमार अमराजी के मकान होते हुये अशोक मरडिया मकान के कार्नर से नारायणजी मंदिर के पश्चिम दिशा होते हुये खासाजी घांची के मकान कॉर्नर हेण्डपम्प के पास होते हुये माणकलालजी खण्डेवाल के |

| | | | |
|------------|-------------------|------------|--|
| | | | मकान से कालुराम टेकाजी के मकान होते हुये प्रजापत की पोल का सम्पूर्ण भाग नारायण मंदिर के सामने टीपु देवी सेन के मकान से उत्तर दिशा में गोरवालों की पोल होते हुये से सेवंतीलाल मकान का कॉर्नर से रामदेवजी मंदिर ,जैन मंदिर से गणेश घांची के मकान से नारायण जी मंदिर तक कार्नर तक का सामने वाला सम्पूर्ण भाग। |
| 11 | 18 (सम्पूर्ण भाग) | 477 | हिम्मत राम पटेल के मकान से खटिक वास होते हुये कृषि भूमि तक पूर्वी भाग वहां से धीधावा जाव कृष्ण नगर गली तक उदयपुर रोड तक का सम्पूर्ण भाग। कृष्ण नगर गली का पूर्वी भाग होते हुये राकेश कुमार रावल के परकोटे से अशविन ओझा के मकान तक पद्मावती कालोनी होते हुये पश्चिम और धीधावा कृषि भूमि से कृष्ण नगर गली तक का सम्पूर्ण भाग। कन्हैयालाल गोरधन जी रावल के मकान से होते हुये पूर्वी और सोनीयो के बगीचें के कॉर्नर से अजारी मार्ग होते हुये बडीवाव से मांगीलाल व्यास के मकान होते हुये पद्मावती कॉलोनी से पुनः कन्हैयालाल के मकान तक का सम्पूर्ण भाग। |
| | 19 (सम्पूर्ण भाग) | 479 | |
| योग | | 956 | |
| 12 | 20 (सम्पूर्ण भाग) | 537 | भवंर पटेल के मकान होते हुये पूर्व और आटा चक्की होते हुये विक्रम पटेल के कार्नर से मुडकर पुनः भवंर पटेल के मकान तक का सम्पूर्ण भाग। श्री मुपाराम घांची के मकान से लखारो की गली होते हुये कागों का वास होते हुये देवाराम घांची के मकान से पंडित के मकान के कार्नर से उदयपुर रोड होते हुये पुनः मुपाराम घांची के मकान तक का सम्पूर्ण भाग। श्री मांगीलाल पुरुषोत्तम के मकान से दक्षिण पश्चिम कॉर्नर से पूर्व में चलकर दांयी होते हुये अचलाराम झालाजी रावल के मकान से दक्षिण पूर्व कौने तक वहा से मुडकर बाया क्षेत्र सम्मिलित करते हुये हनुमान जी मंदिर तक वहा से पश्चिम में मुडकर आबादी लेते हुये चुन्नीलाल शिवलाल जोगातर के मकान तक वहां केशव मंदिर को सम्मिलित कर बाया लेते हुये कंसारा जगदीश छोगाजी का बाया क्षेत्र लेते हुये महालक्ष्मी मंदिर तक वहां से दक्षिण में मांगीलाल जी मकान तक सम्पूर्ण भाग। |
| | 23 (सम्पूर्ण भाग) | 445 | |
| योग | | 982 | |
| 13 | 21 (सम्पूर्ण भाग) | 296 | भवंरलाल कानाजी पटेल की दुकान से मनमोहित होते हुये कबुतर चौतरा से दक्षिण में मोहनलाल अग्रवाल के मकान से आदर्श को कॉपरेटिव बैंक होते हुये पीछे के कॉर्नर से जैन धर्मशाला से पुनः भवंर लाल पटेल की दुकान तक का सम्पूर्ण भाग। तलाब की पाल के पास पुनमाराम जिंगर के कॉर्नर से नाथुलाल अग्रवाल से बद्ररी सोनी की दुकान का कॉर्नर होते हुये रिक्शा स्टेण्ड से बाबुलाल अमराजी घांची के कॉर्नर से उदयपुर रोड बस स्टेण्ड से काशीबाबा मंदिर अग्रवाल धर्मशाला उरिया अरठ को लेते हुय धोबिया वाला कुंआ तक का सम्पूर्ण भाग |
| | 22 (सम्पूर्ण भाग) | 698 | |
| योग | | 994 | |
| 14 | 25 (सम्पूर्ण भाग) | 609 | जवाराम रताजी प्रजापत के मकान से कार्नर से होते |

| | | | |
|----|-------------------|-------------|---|
| | 26 (आंशिक) | 300 | हुये कलींगर वास तलसारास सेन के मकान होने हुये शितला माता मंदिर होते हुये उत्तर की और प्रीत उपेन्द्र के मकान से नारायण सिंह डाबी के मकान को सम्मिलित करते हुये सरगडा वास मेघवाल वास रामदेव मंदिर के कौन से AIRTEL TOWAR होते हुये पुनः जवाराम/रताजी के मकान तक सम्पूर्ण भाग। |
| | योग | 909 | |
| 15 | 24 शेष भाग | 270 | कैलाश पान सेन्टर से नई सेरी मस्जिद की और जाने वाली रोड पश्चिम दिशा में होते हुये गांगो की सेरी होते हुये हनुमान जी मंदिर से सामने सोनाराम प्रजापत की दुकान से पूर्वी और कैलाश पान सेन्टर का सम्पूर्ण भाग। तक कॉर्नर से मकान तक वहां से दक्षिण पूर्वी भाग में गांगो की सेरी से सोहनलाल प्रजापत के दुकान तक से कैलाशपान सेन्टर तक का सम्पूर्ण भाग। सिसोदिया हरि सिंह के मकान होते हुये धर्म सिंह राठौड के मकान से पुखराज जी जैन के परकोटे दक्षिणी और से जैनों के मकान लेते हुये पुनः हरि सिंह के मकान तक का सम्पूर्ण भाग शक्ति माता मंदिर पश्चिम उत्तरी कोने से मेमन हरूण के मकान से लगाकर सेजारो का वास पश्चिम वाला भाग सागरमल जैन के मकान तक नई सेरी धर्मराम लुहार के मकान से निरंजन मेहता के मकान उत्तरी पश्चिम कोने लेते हुये पुरी वेलाजी स्ट्रीट से कन्याशाला तक सम्पूर्ण भाग। |
| | 26 शेष भाग | 166 | |
| | 28 (सम्पूर्ण भाग) | 357 | |
| | योग | 793 | |
| 16 | 27 (सम्पूर्ण भाग) | 214 | जैन प्याउ से चलकर बाया क्षेत्र लेते हुये वीरचंद पुनमचंद की दुकान तक वहां से मुडकर बाया क्षेत्र लेते हुये लौहार भंवरलाल मछाजी के मकान तक वहा से छीपा गली शक्ति माता मंदिर से परमार नोवल्टी से पान की दुकान के कॉर्नर से फिर प्याउ तक का सम्पूर्ण भाग। सैजारों का वास पूर्वी भाग हिरालाल धनजी मेवाडा के मकान पूर्वी दक्षिण कोने से चम्पत लुहार का मकान लेते हुये आमली रोड पश्चिम भाग से मगनलाल जी प्रजापत मकान होते हुये रमेश छीपा के मकान के कार्नर से शक्ति माता मंदिर उत्तरी गली से मोहनलाल सोनी के मकान तक कॉर्नर से पुनः हिराराल मेवाडा के मकान तक सम्पूर्ण भाग। खेताराम पुरोहित के कॉर्नर से लगाकर दक्षिण पश्चिम कोने से सुरजमलजी प्रजापत के मकान से सुरमंदिर होते हुये शक्ति माता जी के सामने वाली गली सोनीयों के मकान के कार्नर से रामदेव जी मंदिर होते हुये पूर्वी उत्तरी कोना प्रतापरामजी प्रजापत के मकान से पुनः के खेताराम के मकान तक सम्पूर्ण भाग। |
| | 29 (सम्पूर्ण भाग) | 498 | |
| | 30 (आंशिक) | 400 | |
| | योग | 1112 | |
| 17 | 30 (शेष) | 302 | शक्ति माता मंदिर के सामने से कैलाश माली की दुकान से होते हुये हेंडगेवार चौक हसन अली की दुकान से पूर्व चलते हुये मातादीन भुरमल अग्रवाल के मकान को सम्मिलित करते हुये गणपति प्लाजा बिग बाजार,भानाराम की दुकान के कॉर्नर से पुनः आशा मेडिकल तक से कैलाश माली की दुकान तक सम्पूर्ण |
| | 31 (सम्पूर्ण भाग) | 799 | |
| | योग | 1101 | |

| | | | |
|----|---------------------|-------------|--|
| | | | भाग। वरदाजी लुहार के मकान से उत्तरी पश्चिम कोने से दक्षिण चलते हुये बाई आबादी लेते हुये सीताराम/राजाजी के मकान तक वहा से सडक को क्रेस कर मोहनलाल गणेशाजी कुम्हार के मकान से उत्तरी पश्चिम कौन से दक्षिण से बायी आबादी को लेते हुये वीरारामजी प्रजापत के मकान तक वहां से मुडकर बायी आबादी लेते हुये लक्ष्मण धर्माजी के मकान तक वहां से पश्चिम मुडकर बाये क्षेत्र लेते हुये मोटाजी वरदाजी के मकान तक वहां ढोलीवास सम्मिलित का करते हुये सम्पूर्ण भाग है। |
| 18 | 32 (सम्पूर्ण भाग) | 409 | कुम्हार समाराम/भूबाजी के मकान से बायी आबादी लेते हुये वदाराम/साकंलाजी के परकोटे तक वहा से पूर्व में मुडकर विक्रम सिंह वकिल के मकान होते हुये मोहन/कालुजी हरिजन के मकान तक वहां से रोड कांस कर हांजी मोहम्मद के मकान से दक्षिण में चलते हुये बायी आबादी लेते हुये अमीन/ कमरुदीन के मकान तक वहां से पूर्व में मुडकर उदयपुर रोड पर बायी आबादी लेते हुये एफसीआई गोदाम की सम्मिलित करते हुये नदी रपट तक वहां से गोपेश्वर मार्ग से श्रीराम आवासीय योजना से पुनः गंजी तक सम्पूर्ण है। |
| | 33 (सम्पूर्ण भाग) | 748 | |
| | योग | 1157 | |
| 19 | 34 (सम्पूर्ण भाग) | 316 | अल्ट्राटेक सीमेन्ट के रास्ते पर जोड बीड से होते हुये आमली रोड पूर्वी भाग नहर होते हुये कुम्हारो की पंचायत भवन से पूर्वी उत्तर भाग कस्तुरजी मेघवाल के मकान से समाराम भुबाजी के मकान तक सम्पूर्ण भाग। लखमाराम कारखाने से दक्षिण भाग मेघवाल वास होते हुये छोगाराम/गोरखाजी सेानी के मकान के कार्नर से नैनाराम लुहार के घर तक पुनः डापा गली पश्चिम उत्तरी भाग से होते हूए रामदेवजी मंदिर के सामने वाला भाग से पुनः लखमाराम के कारखाने तक का सम्पूर्ण भाग। |
| | 35/1 (सम्पूर्ण भाग) | 523 | |
| | योग | 839 | |
| 20 | 35/2 (सम्पूर्ण भाग) | 485 | नैनाराम लुम्हार के मकान के सामने वाली गली नैनाराम केसाजी कुम्हार के मकान से मालीयो के मकान होते हुये रामदेवजी मंदिर से मेघवाल वास सम्पूर्ण भाग कृषि भूमि घरे हुये भैरू सिंह कुल्फी वाले का मकान लेते हुये सम्पूर्ण भाग। डापा नाडी में स्थित सुभाष कॉलोनी को सम्मिलित करते हुये गोपेश्वर जाने वाली मार्ग मालीयों का कुंआ वागसिंह देवडा का कुंआ, वनवासी स्कुल के उत्तरी पूर्वी आबादी को लेते हुये सम्पूर्ण भाग। |
| | 36 (सम्पूर्ण भाग) | 474 | |
| | योग | 959 | |
| 21 | 37 (सम्पूर्ण भाग) | 560 | पुरोहित भवन से आमली रोड तक पश्चिमी भाग से होते हुये उत्तरी पश्चिम कोने से लक्ष्मण सिंह के मकान होते हुये दक्षिण दिशा में राजाराम मीणा के मकान से दक्षिण की तरफ लखारों की गली मीणावास से भुतबगले तक वहा से उत्तमचंद मगनलालजी जैन के कोने से पुरोहित भवन का सम्पूर्ण भाग। वजाराम प्रजापत के मकान से पूर्वी उत्तर कोने से चुन्नीलाल प्रजापत के मकान से आमली रोड अनोपदास झुपडी से महादेव मंदिर तक का सम्पूर्ण भाग। |
| | 38 (आंशिक) | 400 | |
| | योग | 960 | |
| 22 | 38 (शेष) | 296 | महादेव मंदिर से महेन्द्र सिंह परिहार के मकान होते हुये |

| | | | |
|----|-----------------------|-------------|--|
| | 39 (सम्पूर्ण भाग) | 808 | दक्षिण में वारकी वालों के वहा से जैन परकोटे से पुनः वजाराम के मकान तक एवं जीवaram मोतीजी के मकान के कॉर्नर से राजपुत समाज भवन होते हुये नारायण/धर्माजी प्रजापत के मकान खारा कुंआ होतु हुये दानाराम प्रजापत/ धर्माजी के मकान तक से पुनः जीवाराम/मोतीजी के मकान तक का सम्पूर्ण भाग । मगनलाल हिरागर अध्यापक के कोने से होकर पश्चिम दिशा में हंसराज हिरागर के मकान तक वहां से उत्तरी भाग होते हुये रावाराम श्रीराम पब्लिक स्कूल होते हुये क्षेत्रपाल मार्ग वाली गली तेजाराम कुम्हार के मकान के कॉर्नर से होते हुये से आमली रोड महादेव मंदिर के पश्चिम दिशा गली रेबारी वास लेते हुये पीराराम रबारी का मकान से मामाजी थान से पुनः मगनलाल हिरागर के मकान तक का सम्पूर्ण भाग । |
| | योग | 1104 | |
| 23 | 40 (सम्पूर्ण भाग) | 612 | शांतिलाल के मकान से लेकर उत्तर पश्चिम और क्षेत्रपाल मंदिर को सम्मिलित करते हुये रामाराम रेबारी के कॉर्नर लेते हुये लक्ष्मीनारायण जी रोड के कॉर्नर पर |
| | 42 (सम्पूर्ण भाग) | 588 | अर्जुन सिंह डाबी का मकान होते हुये चुन्नीलाल मेघवाल का मकान लेते हुये कुपाराम हिरागर के मकान से खीमाराम मेघवाल के मकान तक से पुनः पूर्वी उत्तरी भाग शांतिलाल का मकान सम्पूर्ण भाग । केसाराम डाईवर मेघवाल के मकान होते हुये उत्तरी भाग में गोपीलाल के मकान तक वहां से शांतिलाल हिरागर से अचलाराम मेघवाल के मकान होते हुये जब्बर सिंह सौलकी के मकान तक वहां से इन्द्रा कॉलोनी होते हुये लक्ष्मण परमार वृध के घर से केसाराम के मकान तक सम्पूर्ण भाग। एवं भुत बगले के सामने माणकलाल प्रजापत की दुकान से लेकर उत्तरी और मोहनसिंह डाबी के मकान तक वहां से खारा कुंआ होते हुये भंवरसिंह परमार के मकान को सम्मिलित करते हुये पुनम सिंह परमार की दुकान को लेते हुये पुनः माणक प्रजापत की दुकान का सम्पूर्ण भाग । |
| | योग | 1200 | |
| 24 | 41 (सम्पूर्ण भाग) | 739 | आमली रोड लसाराम गुआरीया के मकान होते हुये उत्तरी पूर्वी कोने से नहर के किनारे होते हुये पश्चिम दक्षिण भाग किनारे नहर के पास रेबारी वास को लेते हुये पुनः अमर सिंह डाबी के मकान होते हुये लसाराम गुआरीया के मकान तक सम्पूर्ण भाग । नहर के किनारे बाबूसिंह परिहार के मकान होते हुये सतीमाता कृषि फार्म से होते हुये आमली रोड महाराणा प्रताप सर्कल तक सम्पूर्ण भाग । |
| | योग | 739 | |
| 25 | 43 (1) (सम्पूर्ण भाग) | 553 | भंवर सिंह डाबी के मकान से दक्षिण दिशा होते हुये महबुब पठान के घर से राम लाल मेघवाल के कॉर्नर से पीछे परकोटे स्कूल के सामने वाली लक्ष्मीनारायण मार्ग होते हुये राशन शॉप से कब्रिस्थान के पास नहर नहर से पुनः चम्पत सिंह के मकान होते हुये भंवर सिंह के मकान तक । |
| | 43 (2) (सम्पूर्ण भाग) | 502 | कृषि भूमि स्वामीनारायण कारखाने से लगाकर |
| | योग | 1055 | |

| | | |
|--|--|---|
| | | कब्रिस्थान से रा. उ.प्रा. वि.न. 18 से मोहनलाल मेघवाल के मकान लेते हुये शंकरलाल टेलर के मकान के दक्षिणी पश्चिम से झाडोली जाने वाले मार्ग जिसमें नवा अरठ लक्ष्मीनारायण आबादी का नदी तक का सम्पूर्ण भाग। |
|--|--|---|

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।